HSS 2014-15: DATA FORM FOR ANTENATAL CLINIC ATTENDEES (ANC)

एच.एस.एस. २०१४-१५ प्रसवपूर्व जांच केंद्रों में जाने वाली महिलाओं के लिए डेटा प्रपत्र

(Please fill the site details in the box below OR Paste the sticker with site details/Stamp the site details in the empty box सेन्टिनेल साइट की जानकारी यहां लिखें / छापें / चिपकायें)

	रा यहा लिख/छाप/।चपकाय)
State/ राज्य: District/ जिला:	
Site Name / साइट का नाम :	
(Site Code) (Sub-site No.) (Sample No.) (Date-DD/MM/YY)	
1. Age (in completed years) / आयु (संपूर्ण वर्षों में)	
2. Literacy Status / साक्षरता स्थिति1. Illiterate / निरक्षर2. Literate and till 5th standa4. 11th to Graduation / ग्यारहवीं से स्नातक5. Post Graduation / स्नातक	
3. Order of Current Pregnancy / वर्तमान गर्भ का क्रम	
	hird / तीसरी बार 4. Fourth or more / चौथी या उससे ज्यादा
4. Source of Referral to the ANC clinic / प्रसवपूर्व जाँच केन्द्र में रेफरल का	म्रोत
1. Self Referral / स्वतः रेफरल	2. Family/ Relatives/ Neighbors/ Friends / परिवार / रिश्तेदार / पड़ोसी / दोस्त
3. NGO / एन.जी.ओ	4. Private Hospital (Doctor/ Nurses) / निजी अस्पताल (डॉक्टर / नर्स)
5. Govt. Hospital (including, ASHA/ANM) / सरकारी अस्पताल (आशा / ए.एन	.एम.) 6. ICTC / ART Centre / आई.सी.टी.सी / ए.आर.टी केन्द्र
5. Current Place of Residence / वर्तमान निवास स्थान	
1. Urban (Municipal Corporation / Council /Cantonment) / शहरी (नगरपार्ग	लेका / निगम / छावनी) 2. Rural / ग्रामीण
6. Duration of Stay at Current Place of Residence / वर्तमान निवास स्थान	में ठहरने की अवधि years / वर्ष months / महीने
o. Duration of Stay at Current Place of Residence / 4(14)11 1141(1 14)11	T OPEN AN OIGIN I II I VERIS / 99 I II I IIIOIIUIS / TOPI I
	, section 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय	, see the see of the s
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी	bourer / गैरकृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक rs etc./ स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले)
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat	bourer / गैरकृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक rrs etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) cor /landholder / कृषक / जमींदार
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक rrs etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) cor /landholder / कृषक / जमींदार
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्घकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat 14. Housewife / गृहणी 8. Current Occupation of the Spouse / प्रतिवादी के पति का वर्तमान व्यवस् 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक rs etc./ स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) cor /landholder / कृषक / जमींदार ाय bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्घकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat 14. Housewife / गृहणी 8. Current Occupation of the Spouse / प्रतिवादी के पति का वर्तमान व्यवस् 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्घकुशल श्रमिक 5. Petty business / small	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक rs etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) cor /landholder / कृषक / जमींदार ाय bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat 14. Housewife / गृहणी 8. Current Occupation of the Spouse / प्रतिवादी के पति का वर्तमान व्यवस् 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक rs etc./ स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) cor /landholder / कृषक / जमींदार गय bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat 14. Housewife / गृहणी 8. Current Occupation of the Spouse / प्रतिवादी के पति का वर्तमान व्यवस् 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi/ personal driver, handcart pullers, ricksh	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक rs etc./ स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) cor /landholder / कृषक / जमींदार nu bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक aw pullers etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी / व्यक्तिगत ड्राइवर, ठेलेवाले रिक्शेवाले)
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat 14. Housewife / गृहणी 8. Current Occupation of the Spouse / प्रतिवादी के पति का वर्तमान व्यवस् 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi/ personal driver, handcart pullers, ricksh 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivator /landholder /	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक ors etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) cor /landholder / कृषक / जमींदार 1114 bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक aw pullers etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी / व्यक्तिगत ड्राइवर, ठेलेवाले रिक्शेवाले) कृषक / जमींदार 13. Unemployed / बेरोजगार
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat 14. Housewife / गृहणी 8. Current Occupation of the Spouse / प्रतिवादी के पति का वर्तमान व्यवस् 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi/ personal driver, handcart pullers, ricksh	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक ors etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) cor /landholder / कृषक / जमींदार 1114 bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक aw pullers etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी / व्यक्तिगत ड्राइवर, ठेलेवाले रिक्शेवाले) कृषक / जमींदार 13. Unemployed / बेरोजगार
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कृशल / अर्धकृशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat 14. Housewife / गृहणी 8. Current Occupation of the Spouse / प्रतिवादी के पति का वर्तमान व्यवस् 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कृशल / अर्धकृशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi/ personal driver, handcart pullers, ricksh 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivator /landholder /	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक rs etc./ स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) cor /landholder / कृषक / जमींदार गय bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक aw pullers etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी / व्यक्तिगत ड्राइवर, ठेलेवाले रिक्शेवाले) कृषक / जमींदार 13. Unemployed / बेरोजगार नहीं होता (अविवाहिता / विधवा / तलाकशुदा / अलग महिलाओं के लिय)
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat 14. Housewife / गृहणी 8. Current Occupation of the Spouse / प्रतिवादी के पति का वर्तमान व्यवस् 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi/ personal driver, handcart pullers, ricksh 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivator /landholder / 99. Not Applicable (For Never married/Widows/Divorced/Separated) / लागू 9. Does spouse reside alone in another place / town away from wife for v लिए 6 महीनों से ज्यादा किसी दूसरे स्थान पर रहते है?	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक rs etc./ स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) cor /landholder / कृषक / जमींदार गय bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक aw pullers etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी / व्यक्तिगत ड्राइवर, ठेलेवाले रिक्शेवाले) कृषक / जमींदार 13. Unemployed / बेरोजगार नहीं होता (अविवाहिता / विधवा / तलाकशुदा / अलग महिलाओं के लिय)
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat 14. Housewife / गृहणी 8. Current Occupation of the Spouse / प्रतिवादी के पति का वर्तमान व्यवस् 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi/ personal driver, handcart pullers, ricksh 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivator /landholder / 99. Not Applicable (For Never married/Widows/Divorced/Separated) / लागू 9. Does spouse reside alone in another place / town away from wife for v लिए 6 महीनों से ज्यादा किसी दूसरे स्थान पर रहते है?	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक rs etc./ स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) cor /landholder / कृषक / जमींदार nu bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक aw pullers etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी / व्यक्तिगत ड्राइवर, ठेलेवाले रिक्शेवाले) कृषक / जमींदार 13. Unemployed / बेरोजगार नहीं होता (अविवाहिता / विधवा / तलाकशुदा / अलग महिलाओं के लिय) vork for longer than 6 months? / क्या प्रतिवादी के पति उनसे दूर काम के
7. Current Occupation of the Respondent / प्रतिवादी का वर्तमान व्यवसाय 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कृशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi driver, handcart pullers, rickshaw pulle 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivat 14. Housewife / गृहणी 8. Current Occupation of the Spouse / प्रतिवादी के पति का वर्तमान व्यवस् 1. Agricultural Labourer / कृषि श्रमिक 2. Non-Agricultural La 4. Skilled / Semiskilled worker / कुशल / अर्धकुशल श्रमिक 5. Petty business / small 7. Service (Govt./Pvt.) / कर्मचारी (सरकारी / निजी) 8. Student / विद्यार्थी 10. Local transport worker (auto/ taxi/ personal driver, handcart pullers, ricksh 11. Hotel Staff / होटल कर्मचारी 12. Agricultural cultivator /landholder / 99. Not Applicable (For Never married/Widows/Divorced/Separated) / लागू 9. Does spouse reside alone in another place/ town away from wife for v लिए 6 महीनों से ज्यादा किसी दूसरे स्थान पर रहते है? 1. Yes / हां 2. No / नहीं 99. Not Applicable (For Never married/Widows/Div	bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक rs etc./ स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी ड्राइवर, ठेलेवाले, रिक्शेवाले) or /landholder / कृषक / जमींदार गय bourer / गैर कृषि श्रमिक 3. Domestic Servant / घरेलू नौकर shop / लघु उद्योग / छोटी दुकान 6. Large Business/Self employed/विस्तृत उद्योग / स्वरोजगार 9. Truck Driver/helper / ट्रक चालक / सहायक aw pullers etc./स्थानीय परिवहन कर्मचारी (ऑटो / टैक्सी / व्यक्तिगत ड्राइवर, ठेलेवाले रिक्शेवाले) कृषक / जमींदार 13. Unemployed / बेरोजगार नहीं होता (अविवाहिता / विधवा / तलाकशुदा / अलग महिलाओं के लिय) vork for longer than 6 months? / क्या प्रतिवादी के पति उनसे दूर काम के vorced/Separated) / लागू नहीं होता (अविवाहिता / विधवा / तलाकशुदा / विधवा / तलाकशुदा / अलग महिलाओं के लिय)

सेन्टिनेल साइट के प्रभारी)

व्यक्ति जिसके द्वारा फार्म भरा गया)

HSS 2014-15: Instructions to Fill ANC Data Form

QUESTION/ FIELD	DESCRIPTION/ INSTRUCTIONS
Box with site and	Stamp or place the sticker in the empty box on the right with details of
sample details	State, District, site name, site code and sub site number.
	Write the following 2 items manually.
	1. Sample number. 2. Date of sample collection.
	If stamp/stickers are not provided by SACS, enter all these details in the box on the left.
	in stainpystickers are not provided by SACS, effect all these details in the box on the fere.
1. Age	Write the age of the respondent in completed years.
2. Literacy status	Circle the appropriate literacy status using the explanation given below:
	1. Illiterate: Without any formal or non-formal education.
	2. Literate and till 5th standard : Those with non-formal education or those who joined school but not studied beyond 5th standard.
	3. 6 th to 10 th standard : Those who studied beyond 5th standard but not beyond 10th standard.
	4. 11th to Graduation : Those who studied beyond 10 th standard but not beyond graduation. Includes those with technical education/ diplomas.
	5. Post Graduation : Those who studied beyond graduation
3. Order of current pregnancy	The order of pregnancy denotes the number of times a woman has become pregnant. It includes the number of live births, still births and abortions. Enquire about each of the above and add them to arrive at the order of pregnancy. Circle the appropriate number.
4. Source of Referral	Enquire about who referred the woman for ANC visit. Government health care providers include ANM, ASHA, doctors/nurses at PHC, CHC, etc. Circle the appropriate option.
5. Current place of residence	Enquire if the current place of residence of the respondent (the place she is living with her husband) falls under Municipal Corporation or Municipal Council or Cantonment Area.
	- If yes, circle the first option (Urban).
	- If no, circle the second option (Rural).
	Don't write the name of the place.
	Enquire the duration of stay at the current place of residence (the place she is living with her husband) and write the response in years and months.
of residence	- If the duration is less than one year, write '0' years and the number of months as reported by the respondent.
	- If the duration is less than one month, write '0' years, '1' month.
7. Current occupation of	Circle the appropriate current occupation of the respondent using the explanations given below. Only the categories which need some elaboration are explained below.
the respondent	2. Non-Agricultural Labourer: includes workers at construction sites, quarries, stone crushers, road or canal works, brick-kilns, etc.
	4. Skilled/ Semi-skilled worker: includes workers in small-scale or cottage industries; industrial/ factory workers; technicians such as electricians, masons, plumbers, carpenters, goldsmiths, iron-smiths, those involved in automobile repair works etc.; artisans such as weavers, potters, painters, cobblers, shoe-makers, tailors etc.
	5. Petty business/small shop: Includes vendors selling vegetables, fruits, milk, newspapers, etc. or running a pan shop.
	6. Large business/ self-employed: Includes professionals and businessmen.
	7. Service: Those working on salary basis in government, private or institutional sector excluding drivers, & hotel staff
8. Occupation of the spouse	Same as occupation of the respondent (Question no.7). If the woman is never married/ widowed/divorced/ separated, circle option '99' (Not Applicable).
9. Migration Status	This question is asked to understand migration status of the spouse. If the spouse lives away from the wife for more than 6 months in a year, then circle 'Yes', otherwise, circle 'No.' If the woman is never married/ widowed/ divorced/ separated, circle option '99' (Not Applicable).